



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 280 राँची, शुक्रवार,

29 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 मार्च, 2019

संख्या-5/आरोप-1-73/2017-1500 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो० अनिस, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडाँड़, लातेहार के विरुद्ध प्रखण्ड महुआडाँड़ के पंचायत-गुढबुढनी, ग्राम-बराही में योजना सं०-07/2015-16, गायघाटी से लेकर दूर्गाबाड़ी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण एवं योजना सं०-01/2015-16 आंगनबाड़ी केन्द्र बराही से लेकर बैगा बगीचा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण में अवैध तरीके से जे०सी०बी० मशीन से कार्य कराने एवं फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर 5,61,816/- रुपये सरकारी राशि के गबन में संलिप्तता संबंधित आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1713, दिनांक 05.06.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-296/म०को०, दिनांक 19.04.2017 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः मो० अनिस के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा मो० अनिस को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. मो० अनिस द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. मो० अनिस के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD ANISH 110033186520	मो० अनिस, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडाँड़, लातेहार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
